



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3--उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 1970/फाल्गुन 8, 1891

No. 66] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 1970/PHALGUNA 8, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 24th February 1970

S.O. 828. In pursuance of sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notify the District, Taluka, Nagar and Gram Panchayats constituted under the Gujarat Panchayats Act, 1961, within the state of Gujarat, for the purposes of the said sub-clause.

[No. 23/F. No. 275/4/70-ITJ.]

S. K. LALL, Dy. Secy.

